

AR-1109

**B.Com. (Part-III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination—III)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

- Note :—** (1) Attempt all **five** questions
(2) All questions carry equal marks.

1. (a) What do you mean by Bank ? 4
- (b) What is Automatic Teller Machine ? (ATM) 4
- (c) Explain the Branch Banking System. 3
- (d) State the difference between Debit and Credit Card. 3

OR

- (e) State the importance of Banking Services. 4
 - (f) State the characteristics of Bank. 4
 - (g) Explain the functions of Credit Card. 3
 - (h) Write the brief history of Bank. 3
2. What is meant by Regional Rural Bank ? Explain its objectives and importance. 14

OR

Explain the objectives and functions of Development Bank. 14

3. (a) Discuss the services rendered by Foreign Banks in India. 4
(b) State the structure of Commercial Bank. 4
(c) State the role of Private Bank in Indian Economy. 3
(d) Write any four functions of a Commercial Bank. 3

OR

- (e) State the limitations of credit creation of Commercial Bank. 4
(f) Explain concept and meaning of Private Bank. 4
(g) Explain the primary functions of Commercial Bank. 3
(h) Define Foreign Bank. 3
4. (a) Explain the concept of 'Monetary Policy'. 4
(b) Explain the organization of State Bank of India. 4
(c) Explain 'Bank Rate'. 3
(d) Explain the limitations of credit control. 3

OR

- (e) State the role of State Bank of India in Economic Development. 4
(f) State the definitions of Reserve Bank of India. 4
(g) Explain the objectives of credit control. 3
(h) Explain the credit control policy of RBI. 3

5. State the provisions of Banking Regulation Act, 1949.

14

OR

Discuss in detail the powers of RBI to regulate Co-operative Banks.

14

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहेत.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

(अ) अधिकोष यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 4

(ब) स्वयंचलित गणक यंत्र (ATM) म्हणजे काय ? 4

(क) शाखा बँकिंग प्रणाली स्पष्ट करा. 3

(ड) नावेपत्र व जमापत्र ((Debit Card and Credit Card)
यातील फरक सांगा. 3

किंवा

(इ) अधिकोषण सेवेचे महत्व सांगा. 4

(फ) अधिकोषाची (बँकेची) वैशिष्ट्ये सांगा. 4

(ग) पतपत्राची (Credit Card) कार्ये स्पष्ट करा. 3

(ह) अधिकोषाचा संक्षिप्त इतिहास सांगा. 3

क्षेत्रीय ग्रामीण अधिकोष म्हणजे क्या ? त्याची उद्देश्य आणि
महत्व स्पष्ट करा. 14

किंवा

विकास बँकेचे उद्देश आणि कार्य स्पष्ट करा. 14

3. (अ) विदेशी अधिकोषांद्वारे भारतात दिल्या जाणाऱ्या सेवांची चर्चा करा. 4
(ब) व्यापारी बँकेची रचना सांगा. 4
(क) भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाजगी बँकेची भूमिका सांगा. 3
(ड) व्यापारी अधिकोषाची कोणतीही चार कार्ये लिहा. 3

किंवा

- (इ) व्यापारी अधिकोषाच्या प्रत्यय निर्मितीच्या मर्यादा सांगा. 4
(फ) खाजगी बँकेची संकल्पना व अर्थ स्पष्ट करा. 4
(ग) व्यापारी बँकेची प्राथमिक कार्ये स्पष्ट करा. 3
(ह) विदेशी बँकेची व्याख्या सांगा. 3
4. (अ) मौद्रिक धोरणाची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
(ब) स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे संघटन स्पष्ट करा. 4
(क) 'अधिकोष दर' स्पष्ट करा. 3
(ड) प्रत्यय नियंत्रणाच्या मर्यादा स्पष्ट करा. 3

किंवा

- (इ) आर्थिक विकासात स्टेट बँक ऑफ इंडियाची भूमिका सांगा. 4
(फ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेची व्याख्या सांगा. 4
(ग) प्रत्यय नियंत्रणाचे उद्देश स्पष्ट करा. 3
(ह) भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पत नियंत्रण धोरण स्पष्ट करा. 3

5. अधिकोष नियमन कायदा 1949 मधील तरतुदी सांगा. 14

किंवा

सहकारी अधिकोषांचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाराची सविस्तर चर्चा करा. 14

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न हल कीजिए।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. (अ) बैंक से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 4
- (ब) स्वयंचलित गणक यंत्र (ATM) याने क्या ? 4
- (क) शाखा बैंकिंग प्रणाली स्पष्ट कीजिए। 3
- (ड) नावेपत्र (Debit Card) एवम् पतपत्र (Credit Card) इनके भेद बताइए। 3

अथवा

- (इ) बैंकिंग सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। 4
 - (फ) बैंक की विशेषताएं बताइए। 4
 - (ग) पतपत्र (Credit Card) के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 3
 - (ह) बैंक का इतिहास संक्षिप्त में बताइए। 3
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक याने क्या ? उसके उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। 14

अथवा

विकास बैंक के उद्देश्य एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। 14

3. (अ) विदेशी बैंक द्वारा भारत में दी जानेवाली सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। 4
- (ब) व्यापारी बैंक की संरचना बताइए। 4
- (क) भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी बैंकों की भूमिका बताइए। 3
- (ड) व्यापारी अधिकोष की कोई से भी चार कार्य लिखिए। 3

अथवा

- (इ) व्यापारी बैंक की साख (Credit) निर्माण की मर्यादा बताइए। 4
- (फ) निजी बैंक की संकल्पना एवं अर्थ विशद कीजिए। 4
- (ग) व्यापारी बैंक के प्राथमिक कार्य स्पष्ट कीजिए। 3
- (ह) विदेशी बैंक की परिभाषा कीजिए। 3
4. (अ) मौद्रिक नीति (Monetary Policy) की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 4
- (ब) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संघटन स्पष्ट कीजिए। 4
- (क) "बैंक दर" स्पष्ट कीजिए। 3
- (ड) साख नियंत्रण (Credit) की मर्यादाएँ स्पष्ट कीजिए। 3

अथवा

- (द) आर्थिक विकास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बताइए। 4
- (फ) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की परिभाषा बताइए। 4
- (ग) साख (Credit) निर्माण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 3
- (ह) भारतीय रिज़र्व बैंक की साख नियंत्रण नीति को स्पष्ट कीजिए। 3
5. अधिकोषण नियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों को बताइए। 14

अथवा

सहकारी बैंक के नियमन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए। 14

